KANORIA ENERGY & INFRASTRUCTURE LIMITED

(Formerly known as A INFRASTRUCTURE LIMITED)

Regd. Office & Works: Hamirgarh - 311 025, Distt. Bhilwara (Rajasthan) Phone: 01482-286102, FAX: 01482-286104 Website: www.ainfrastructure.com, Email: cs@kanoria.org, CIN: L25191RJ1980PLC002077

Ref No.: KEIL/2025-26 Date: 30.08.2025

The Manager (Listing & Corporate Services) Bombay Stock Exchange Ltd. Ground Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai Maharashtra -400001

BSE Code: 539620

Sub: – Submission of copy of newspaper in respect of publication of notice of 45th annual general meeting, e-voting information and book closure intimation

Dear Sir,

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed newspaper publication dated 30.08.2025 of Financial Express (English edition) and Dainik Bhaskar (Hindi editions) in respect of notice of 45th annual general meeting, e-voting information and book closure intimation.

Kindly take on record.

Thanking you.

Yours faithfully,

For KANORIA ENERGY & INFRASTRUCTURE LIMITED (Formerly known as A INFRASTRUCTURE LIMITED)

Kuldeep Kaw **Director**

DIN: 07882201

FINANCIAL EXPRESS

Detail of the Annlications Received

Continued from previous page...

Sr. No.	Category	Number of Applications	No. of Equity Shares applied	Equity Shares Reserved as per Prospectus	No. of times Subscribed	Amount (₹)
1	Individual Investors	2186	43,72,000	16,40,000	2.67	616980000
2	Non-institutional Investors (upto ₹ 10 lacs)	201	6,42,000	2,35,000	2.73	91056000
3	Non-institutional Investors (above ₹10 lacs)	193	30,20,000	4,70,000	6.43	421945000
4	Qualified Institutional Bidders (excluding Anchors Investors)	09	14,86,000	9,36,000	1.59	211012000
5	Market Maker	1	2,48,000	2,48,000	1.00	35216000
	Total	2590	97,68,000	35,29,000	2.77	1376209000

A summary of the final demand as per NSE as on the Bid/ Issue Closing Date at different Bid prices is as under:

Sr. No.	Bid Price	No. of Equity Shares	% to Total	Cumulative Share Total	Cumulative % of Total
1	135	15,89,000	7.33	1589000	7.33
2	136	18,000	0.08	1607000	7.41
3	137	5,000	0.02	1612000	7.43
4	138	4,000	0.02	1616000	7.45
5	140	21,000	0.10	1637000	7.55
6	141	9,000	0.04	1646000	7.59
7	142	2,00,44,000	92.41	21690000	100.00
	Total	2,16,90,000	100.00		

The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange, being NSE Limited on Thursday, August 28, 2025.

Allotment to Individual Investors (After Rejections)

The Basis of Allotment to the Individual Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of ₹ 142/- per Equity Share, was finalized in consultation with NSE. The category has been subscribed to the extent of 2:32 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 16,40,000 Equity Shares to 820 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category is as under:

Sr. No.	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted
1	2000	1,899	100.00	37,98,000	100.00	2000	820:1899	16,40,000
	TOTAL	1,899	100.00	37,98,000	100.00			16,40,000

Allotment to Non-Institutional Investors- Above ₹2 Lakhs and Upto ₹10 Lakhs (After Rejections)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of ₹142/- per Equity Share, was finalized in consultation with NSE. The category has been subscribed to the extent of 2.62 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 2,35,000 Equity Shares to 78 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category is as under:

Sr. Category No. of Applications of Total No. of Equity Shares of Total No. of Equity Shares Allotted Ratio Total No. of Equity

No.	Category	Received	76 UI 10tai	Applied	76 to rotar	per Bidder	natio	Shares Allotted
1	3000	177	91.71	531,000	85.51	3,000	24:59	2,16,000
2	4000	6	3.11	24,000	3.86	3,000	1:3	6,000
3	5000	3	1.55	15,000	2.42	3,000	1:3	3,000
4	6000	4	2.07	24,000	3.86	3,000	1:2	6,000
5	7000	3	1.55	21,000	3.38	3,000	1:3	3,000
6		1 lot of 1000	shares allotted amor	ngst 78 allottees		1,000	1:78	1,000
	TOTAL	193	100.00	6,15,000	100.00	- 99		2,35,000

Allotment to Non-Institutional Investors- Above ₹10 Lakhs (After Rejections)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of ₹142/- per Equity Share, was finalized in consultation with NSE. The category has been subscribed to the extent of 4.10 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 4,70,000 Equity Shares to 156 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category is as under:

Sr. No.	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted
1	8000	158	90.80	1,264,000	65.59	3,000	71:79	4,26,000
2	9000	2	1.15	18,000	0.93	3,000	1:1	6,000
3	10000		0.57	10,000	0.52	3,000	0:1	
4	12000	. 1	0.57	12,000	0.62	3,000	0:1	1
5	14000	2	1.15	28,000	1.45	3,000	1:1	6,000
6	15000	1	0.57	15,000	0.78	3,000	0:1	101
7	16000	1	0.57	16,000	0.83	3,000	0:1	
8	35000	2	1.15	70,000	3.63	3,000	1:1	6,000
9	36000	1	0.57	36,000	1.87	3,000	0:1	
10	43000	1	0.57	43,000	2.23	3,000	0:1	
11	70000	1	0.57	70,000	3.63	3,000	0:1	
12	99000		0.57	99,000	5.14	3,000	0:1	
13	106000	d	0.57	106,000	5.50	3,000	0:1	
14	140000	1	0.57	140,000	7.27	3,000	0:1	
15		3 lo	ts allotted in	ratio of 8:10 for Sr no 3,4,	6,7,9-14		8:10	24,000
16		2 lot	s of 1000 sha	res allotted amongst 156	allottees	200000000000000000000000000000000000000	2:156	2,000
1000	TOTAL	174	100.00	19,27,000	100.00	4,70,000		4,70,000

4) Allotment to QIBs excluding Anchor Investors (After Rejections)

Allotment to QIBs, who have bid at the Issue Price of ₹142/- per Equity Share or above, has been done on a proportionate basis in consultation with NSE. This category has been subscribed to the extent of 1.59 times i.e 14,86,000 Equity Shares. The total number of Equity Shares allotted in the QIB category (excluding Anchor Investors) is 936000 Equity Shares, which were allotted to 9 successful Applicants.

Category	FIS/Banks	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC	VC'S	Total
ALLOTMENT	4	2		39,000	4,09,000	4,88,000	44	9,36,000

 Allocation to Market Maker (After Rejections & Withdrawal): The Basis of Allotment to Market Maker who have bid at Issue Price of ₹142/- per Equity Shares or above, was finalized in consultation with NSE. The category was subscribed 1.00 times i.e. for 2,48,000 Equity Shares. The total number of shares allotted in this category is 2,48,000 Equity Shares. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for Category wise)	No. of Applications received	% to total	Total No. of Equity Shares applied in this Category	% of total	No. of Equity Shares allocated/ allotted per Applicant	Ra	ntio	Total Number of shares allotted	Surplus/Deficit	
2,48,000	1	100.00	2,48,000	100.00	2,48,000	1	1	2,48,000	0	Ţ
Total	1	100.00	2,48,000	100.00	2,48,000			2,48,000	0	ľ

6) Allotment to Anchor Investors (After Rejections)

The Company in consultation with the BRLM has allocated 14,03,000 Equity Shares to 11 Anchor Investors at the Anchor Investor Issue Price of ₹142/- per Equity Shares in

accordance with the SEBLICDR Regulations. This represents 60% of the QIB Category.									
Category	FIS/Banks	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC	Others	Total	
ALLOTMENT			155		3,69,000	8,93,000	1,41,000	14,03,000	

The Board of Directors of our Company at its meeting held on Thursday, August 28, 2025, has taken on record the basis of allotment of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange, being National Stock Exchange of India Limited and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice Cum Refund Intimation will be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been dispatched/ mailed for unblocking of funds and transfer to the Public Issue Account on or before Friday, August 29, 2025. In case the same is not received within ten days, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees shall be uploaded on or before Friday, 29 August 2025, for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is in the process of obtaining the listing and trading approval from National Stock Exchange of India Limited and the trading of the Equity Shares is expected to commence on Monday, September 01, 2025.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meaning assigned to them in the Prospectus dated August 28, 2025 ("Prospectus").

INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issue, Maashitla Securities Private Limited at https://maashitla.com/

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

MAASHITLA SECURITIES PRIVATE LIMITED

451, Krishna Apra Business Square, Netaji Subhash Place, Pitampura, North West, New Delhi, India, 110034. Tel No.: +91 011-47581432:

Maashitla*

E-mail: investor.ipo@maashitla.com Investor Grievance Email: investor.ipo@maashitla.com Website: http://www.maashitla.com/ Contact Person: Mr. Mukul Agrawal

SEBI Registration No.: INR000004370 CIN: U67100DL2010PTC208725

Designation: Managing Director

CORRIGENDUM TO THE PROSPECTUS DATED AUGUST 28, 2025 ("CORRIGENDUM")

1. The number of shares locked in and as a percentage of total shares under point no. 10 on page 80 under the heading "Shareholding Pattern of our company" is 1,33,37,000 equity shares and 95.59% of total shares respectively under chapter titled "Capital Structure" beginning on page 75 of the Prospectus.

> On behalf of Board of Directors FOR SHIVASHRIT FOODS LIMITED

> > Nishant Singhal

Place: Aligarh Date: August 29, 2025

Managing Director THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS

Disclaimer: Shivashrit Foods Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Kanpur, Uttar Pradesh on August 28, 2025 and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. The Prospectus is available on the website of Book Running Lead Manager to the Offer at www.markcorporateadvisors.com,

website of company at www.shivashritfoods.com and website of NSE i.e. www.nseindia.com, respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 27 of the Prospectus. The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and any applicable U.S. state securities laws. There will be no public offering in the United States and the securities being offered in this announcement are not being offered or sold in the United States.



DRC SYSTEMS INDIA LIMITED π DRC

[CIN: L72900GJ2012PLC070106]

Registered Office: 24th Floor, GIFT Two Building, Block No. 56, Road – 5C, Zone - 5, GIFT CITY, Gandhinagar - 382 050

Tel: +91 79 6777 2222, Email: ir@drcsystems.com, Website: www.drcsystems.com

NOTICE OF THE 13TH ANNUAL GENERAL MEETING AND **E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that the 13th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of DRC Systems India Limited ('the Company') will be held on Thursday, September 25, 2025 at 11:00 A.M. IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM. The Company has dispatched the Annual Report for the Financial Year 2024-25 along with the Notice convening AGM through electronic mode on Friday, August 29, 2025 to the Members whose email addresses are registered with the Company and/or Depositories and/or RTA. Additionally, a letter providing the web link, including the exact path, where complete details of the Notice and Annual Report are available, is also dispatched to those shareholder(s) who have not registered their e- mail addresses with the Company/ RTA/ Depository(ies). In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with MCA circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and SEBI Circular No. SEBI/ HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024. The soft copy of Annual Report for the Financial Year 2024-25 along with the Notice convening the AGM is also available on the website of the Company at www.drcsystems.com, website of the BSE Limited ("BSE") and the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of MUFG Intime India Private Limited ("MUFG Intime") at https://instavote.linkintime.co.in/.

Members who have not registered their e-mail addresses are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s). In respect of shares held in physical form, Members may register their e-mail id by writing to the company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") MUFG Intime India Private Limited ("MUFG Intime") at mail id ahmedabad@in.mpms.mufg.com or send duly filled in Form ISR-1 available at www.in.mpms.mufg.com to the RTA Office at 506 to 508, Amarnath Business Centre -1 (ABC-1), Beside Gala Business Centre, Near St. Xavier's College Corner, Off C.G Road, Ellisbridge, Ahmedabad – 380006.

As per Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company is providing its members the facilities to cast their vote on all the resolutions set forth in the said Notice using electronic voting system ("e-voting") provided by MUFG Intime India Private Limited. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares held in the Paid Up Equity Share Capital of the Company as on Thursday, September 18, 2025 ("cut-off date"). The details as required under relevant provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made there under are given herein below:

	1	Date & Time of commencement of Remote e-voting	9.00 a.m. on Sunday, September 21, 2025
I	2	Date & Time of end of Remote e-voting	5:00 p.m. on Wednesday, September 24, 2025
	3	Cut-off date for determining rights of entitlement for e-voting	Thursday, September 18, 2025

- Those persons who have acquired shares and have become Members of the Company after emailing of notice of AGM by the Company and whose names appear in the Register of Members of the Company/ in the statement of beneficial owners maintained by depositories as on cut-off date can exercise their voting rights through e-voting by following the procedure as mentioned in the said Notice of AGM.
- Remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on Wednesday, September 24, 2025
- E-voting facility will be available during AGM. Members who have already casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may remain present at AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again during AGM.
- Frequently Asked Questions ('FAQs') and InstaVote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or send an email to enotices@in.mpms.mufg.com or contact on: - Tel: 022 - 4918 6000. In case shareholders/ Members have any queries regarding access and their participation

In case shareholders have any queries regarding e-voting, they may refer the

in the meeting through VC, they may send an email to instameet@in.mpms.mufg.com or contact on: - Tel: 022-49186175.

For DRC Systems India Limited

Place: Gandhinagar **Date: August 29, 2025**

Sd/-**Jainam Shah Company Secretary**



Balaji Telefilms Limited CIN: L99999MH1994PLC082802

Registered Office: C-13, Balaji House, Dalia Industrial Estate Opp. Laxmi Industrial Estate, New Link Road, Andheri (W), Mumbai - 400053, Maharashtra. Website: www.balajitelefilms.com, ; E-mail Id: investor@balajitelefilms.com Tel: +91-022-40698000, ; Fax: +91-022-40698181/82

PUBLIC NOTICE OF THE 31" ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS(OAVM)

Notice is hereby given that the 31" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Balai Telefilms Limited ("the Company") will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) on Monday, September 29, 2025 at 03:30 p.m. IST in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circulars dated September 19, 2024, May 05, 2020, April 13, 2020 and April 08, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs, and Circular dated October 03, 2024 issued by Securities and Exchange Board of India (hereinafter collectively referred to as "relevant Circulars"), without the physical presence of the Members. The Members attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the relevant Circulars, the Notice of AGM and the Annual Report for the

financial year 2024-25 will be sent in due course by electronic mode to the shareholders whose E-mail IDs are registered with the Company or with their respective Depository Participant(s) and with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) (viz. KFin Technologies Limited). Shareholders are therefore requested to ensure that their correct e-mail addresses and other details are duly updated in the records. Further, in accordance with Regulation 36(1) (b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a letter be dispatched to shareholders who have not registered their email addresses, providing the web-link with the exact path where the complete details of the Annual Report 2024-25 along with Notice convening the 31" AGM are available. The aforesaid documents available on the website of the Company at (www.balajitelefilms.com) and r accessed on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the well Company's RTA (https://evoting.kfintech.com/public/downloads.aspx). copies of Notice of AGM and Annual Report will be sent to any shareholder. It may be noted that upon specific request by the Member, the Company shall provide the physical copy of the Annual Report to respective shareholder. Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 and 47 of SEBI

Tuesday, September 23, 2025 to Monday, September 29, 2025 (both days inclusive) for the To ensure timely receipt of Notice of AGM and Annual Report 2024-25, the Members are requested to register/update their E-mail address or contact number in the following manner: Manner to register/update E-mail Address:

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, is hereby given that the

Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from

a) In case of Physical holding: Shareholders holding shares in physical mode may register/update their e-mail address in prescribed Form ISR 1 with the Company's R Company has sent letters to such shareholders for furnishing relevant details, in compliance with applicable laws. Form ISR 1 along with other relevant details and Forms are also available at the Company's website at https://www.balajitelefilms.com/important_update_forphysical shareholders.php Members holding shares in physical form are required to complete the above formality to

receive the AGM documents electronically. Please note that physical shareholders eligible to get any service request processed by the RTA only when your KYC details are updated. Further, you will be eligible for any dividend payment only through electronic mode w.e.f. April 1, 2024. We urge the Members holding shares in physical form to get their shares dematerialized and register their E-mail IDs with their respective Depository Participant(s) permanently, in order to receive all communication in electronic form.

 b) In case of Demat holding: Shareholders holding shares in demat mode, who had registered /updated their e-mail address, are requested to get the same registered /updated with their respective Depository Participant(s).

Manner of Remote E-voting or through the E-voting system during the AGM Shareholders will be provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in

the Notice of AGM using electronic voting system (remote e-voting) facility provided by KFin Technologies Limited. The facility for voting through electronic voting system will a available at the time of AGM and the shareholders attending the AGM who have not cast through remote e-voting, will be able to cast their votes at the time of AGM. The credentials and the detailed instructions for remote e-voting and e-voting during the A the Shareholders holding shares in electronic mode / physical mode will be provided

In case of any queries or grievance pertaining to e-voting, you may refer the Frequent Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders ava the download section of https://evoting.kfintech.com or contact Ms Krishna Priya Manager, KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Fir District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad - 500 032, Telangana, India einward.ris@kfintech.com.,Contact No. +91-4067162222 or call on Toll free 1800-3094-001. This is being issued for the information and benefit of the Members of the Comp

compliance with relevant Circulars, as referred hereinabove. For Balaji Telefilms Lin

Date: August 29,2025 Place: Mumbai

Tannu 5

New Delhi

Group Head - Secretarial

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publicatio<mark>ns</mark> We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers of otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

FORM NO. CAA. 2 [Pursuant to Section 230 (3) and rule 6 and 7)] BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL CHANDIGARH BENCH AT CHANDIGARH COMPANY PETITION CP (CAA) NO. 27 OF 2025

COMPANY APPLICATION NO. CA (CAA) NO. 15/CHD/2025 IN THE MATTER OF: SECTION 230 to 232 OF THE COMPANIES ACT, 2013

CONNECTED WITH

IN THE MATTER OF SCHEME OF AMALGAMATION OF: ADVANCED FYTOGEEN PRODUCTS PRIVATE LIMITED APPLICANT NO. 1 / TRANSFEROR COMPANY

GREENCONE ENVIRONS PRIVATE LIMITED

APPLICANT NO. 2 / TRANSFEREE COMPANY **NOTICE OF PETITION** Petition under Sections 230 to 232 and other relevant provisions of the Companies Act, 2013

for obtaining sanction to the Scheme of Arrangement amongst M/s. Advanced Fytogeen Products rivate Limited (Transferor Company) & M/s. Greencone Environs Private Limited (Transferee ompany) and their respective shareholders and creditors ("Scheme") was presented by the etitioners above named companies and the said Petition is fixed for hearing before Nationa Company Law Tribunal, Chandigarh Bench on 12.09.2025. Any person desirous of supporting o opposing the said Petition should send a notice of his/her intention signed by him/her or his/he dvocate with his/her name and address, to the Advocate/Authorised Representative of the etitioner Companies so as to reach the Advocate/Authorised Representative of the Companies not later than 2 (two) days before the date fixed for the hearing of the Petition. Where he/she seek o oppose the Petition, the grounds of opposition and a copy of his/her affidavit should be furished with such notice. A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any person equiring the same upon payment of the prescribed charges for the same.

> **Company Secretaries in Practice** Counsel for the Petitioner Companies SCO-35, First Floor, Sector-20 C, Chandigarh-160020. Email: mrchechi@yahoo.com csshubhamkumar@yahoo.com

Mast Ram Chechi & Shubham

KANORIA ENERGY & INFRASTRUCTURE LIMITED (Formerly known as A INFRASTRUCTURE LIMITED)

Regd. Office: Hamirgarh-311 025, Distt. Bhilwara, Rajasthan Website: www.ainfrastructure.com, Email: cs@kanoria.org, CIN: L25191RJ1980PLC002077, Phone: 01482-286102, FAX: 01482:286104 NOTICE OF 45" ANNUAL GENERAL MEETING. E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE INTIMATION

The notice is hereby given that:

Dated: 29.08.2025

The 45" Annual General meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Thursday, 25" September, 2025 at 12:30 p.m. at Hotel PFC Garden, Behind BSL Guest House, Azad Nagar, Bhilwara, Rajasthan 311001, to transact the business as set out in the notice of AGM dated 5" August, 2025;

In terms of General Circular No. 14/ 2020, 17/ 2020, 20/ 2020, 02/2021 and 02/2022

- issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 issued by Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "SEBI Circular"), the Company has sent 45" AGM Notice along with the Annual Report-2024-25 in electronic form only on 29" August, 2025 to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories/RTA on 22" August, 2025. The Notice convening the AGM and the Annual Report-2024-25 has been uploaded on the website of the Company at www.ainfrastructure.com and may also be accessed from the relevant section of the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com.
- The members who have not yet registered or updated their email addresses are requested to register their email addresses with their Depository Participants. For members holding shares in physical mode, please provide necessary details like folio no., name of shareholder(s) and email addresses at beetalrta@gmail.com
- Pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act, 2013, rule 1 of the companies (management and administration) rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the register of members and share transfer books of the company will remain closed from Friday, the 19th September, 2025 to Thursday, 25th September, 2025 (both days inclusive) for the purpose of the 45" AGM and payment of dividend, if approved at the
- Pursuant to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, The Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the company is providing "remote evoting" facility (before the AGM) to the members to cast their vote by the electronics means on all resolutions set out in the notice of 45th AGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL, for facilitating voting through electronics means.
- The detailed procedure/instructions for "remote e-voting" are contained in the notice of the AGM. In this regard, the members are further notified that;
- A. a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 18" September, 2025 only shall be entitled to avail the facility of "remote e-voting" and "voting" at the AGM
- The "remote e-voting" shall commence from Monday, 22" September, 2025 at 09:00 A.M. and ends on Wednesday, 24" September, 2025 at 05:00 P.M. The "remote e-voting" shall not be allowed beyond 5.00 pm of Wednesday, 24"
- September, 2025. The members who have cast their vote by "remote e-voting" prior to the AGM can
- attend the AGM but shall not be entitled for "voting" at the AGM; Any person who acquires shares of the company and becomes member of the company after sending of the notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 18" September, 2025 may obtain the login id and password by sending a request. at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for e-
- voting then existing user id and password can be used for casting vote. CS Varun Kabra, Practicing Company Secretary has been appointed as
- Scrutinizer for conducting the voting process in a fair and transparent manner. Any query/grievances pertaining to e-voting can be addressed to NSDL at e-mail: evoting@nsdi.co.in, help desk number - 1800-222-990

By order of the Board For A Infrastructure Limited

> Kuldeep Kaw Director DIN: 07882201

Place : Bhilwara Date: 30" August, 2025



भीलवाड़ा भास्कर 30-08-2025

शहर-समाज

दैनिक भारकर, भीलवाड़ा, शनिवार, 30 अगस्त, 2025 | 19

🛚 समाज-संस्था ब्रीफ 🗎

एशियन राइफल पिस्टल में मानिनी ने कांस्य जीता

भीलवाड़ा | मानिनी कौशिक ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और शहर का नाम रोशन किया है। कर्जाकिस्तान के श्यामकेंट में चल 📠 रही 16वीं एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में मानिनी ने 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही टीम इवेंट में उन्होंने सुरभी भारद्वाज और विनोद विदर्शा के साथ मिलकर रजत पदक भी अपने नाम किया। मानिनी पहले भी राष्ट्रीय की

स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन कर चुकी हैं।

वैभव ने क्रिकेट अंडर-17 में सिल्वर मेडल जीता

मीलवाड़ा | भोपाल में हुई क्रिकेट अंडर-17 प्रतियोगिता में बैभव शर्मा के श्रेष्ठ प्रदर्शन के कारण सिल्बर मेडल मिला। विद्वी इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थी वैभव शर्मा ने ऑल ग्रउंडर प्रदर्शन से सिल्वर मेडल प्राप्त 🍜 किया। इसका का योगदान माता पिता और कोच दिगपाल सिंह को दिया।

आरव ने नेशनल क्रिकेट अंडर-17 में सिल्वर जीता

भीलवाड़ा | मध्यप्रदेश के भोपाल में आयोजित सीबीएसई नेशनल क्रिकेट अंडर-17 सलेक्शन प्रतियोगिता में भीलवाड़ा के आख सोनी ने सिल्वर मेडल जीता। विद्वी इंटरनेशनल स्कूल के आख सोनी ने अपने ऑल राउंडर प्रदर्शन से सिल्वर मेडल

प्राप्त किया।



तिथि संवत् : भाद्रपद, शुक्ल पक्ष सप्तमी शनिवार रात्रि 10:47 तक रहेगी, विक्रम संवत् 2082, शके 1947, हिनरी 1447, मुस्लिम माह रवि उल अब्बल, तारीखा 6, सूर्य

दक्षिणायन, शरद ऋतु, ३० अगस्त। सुर्योदय कालीन नक्षत्र : विशाखा नक्षत्र दोपहर 02:37 तक इसके बाद अनुराधा नक्षत्र रहेगा। ऐन्द्र योग दोपहर 03:10 तक, इसके बाद वैधृति योग रहेगा। गर करण प्रात: 09:34 तक, इसके बाद वणिज करण रहेगा।

ग्रह विचार (प्रात: 05:30) : सूर्य-सिंह, चंद्र-तुला, मंगल-कन्या, बुध-कर्क, गुरु-मिथुन, शुक्र-कर्क, शनि-मीन, राहु-कुंभ, केतु-सिंह राशि में स्थित है।

राहुकाल : प्रात: 09:00 से 10:30 तक रहेगा। दिशाशूल : पूर्व दिशा : यदि जरूरी हो तो लॉंग खाकर यात्रा कर सकते हैं।

शुभाशुभ ज्ञानम् : भद्रा रात्रि 10:47 से, सूर्व पू.फा. में रात्रि 09:44, वर्षा सम, बुध मधा सिंह में साथ 04:41, गुरु पुनर्वसु 2 में प्रातः 10:45, बुध अस्त पूर्व में रात्रि 08:20, मुक्ताभरण सप्तमी, सन्तान व दुबड़ी सप्तमी, ललिता सप्तमी बंगाल व उड्डीस्नू, मेला देवनारायण जी का।

चौंघड़िया मुहूर्त : प्रात: 07:44 से 09:18 तक शुभ का, दोपहर 12:28 से 02:02 तक चर का, दोपहर 02:02 से सायं 05:11 तक लाभ और अमृत का चौषड़िया रहेगा।

आज विशेष : आज भूमि पर भवानी और शंकर की मूर्ति (चित्र) लिखकर उसका घोडशोपचार पूजन करें और स्वयं फल खाकर व्रत करें तो मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज सूर्य का फर्लों से पूजन करना शुभ फलदावी है। शनिवार को काले वस्त्र, उड़द एवं काले तिल का दान करने से शनि जनित दोष दूर होते हैं। आज ऐन्द्र योग में कांसी का दान करना शुभ फलदायी होता है।

आज जन्मे बच्चों के नामाक्षर व राशि

field	ndi si	dial	પાવા	41161	.m.ndi.r
06:09	विशाखा	3	ताम्र	तुला	ते
07:53	विशाखा	4	ताम	वृश्चिक	तो
14:37	अनुसधा	1	ताम्	वृश्चिक	न
21:21	अनुराधा	2	ताम्र	वृश्चिक	नी
04:04	अनुराधा	3	ताम्र	वृश्चिक	7

राशिफल

मेष : शुध अंक 7, शुध रंग हरा : जरूरी काम पहले करें, बाद में सुविधा मिलना मुश्किल है। मन ही एन किसी बात को लेकर चिंतित रहेंगे। मित्रों का रूखा व्यवहार आपको दुखी कर सकता है। धर्म-कर्म में स्थि बढ़ेगी।

वृष : शुभ अंक 9 शुभ रंग भूरा : माझेदारी के लिए समय उपयुक्त है। आफ्को अपने काम को गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है। लोग आपका भरोसा तोड़ सकते हैं। अधिकारियों से काम करवाने में सफलता मिलेगी।

😝 मिथुन : शुभ अंक ३, शुभ रंग बादामी : मेहनत के अनुसार लाभ नहीं मिलने से निराशा संभव है। रुके हुए कार्मों में गति आने में समय लग सकता है। जीवनसाथी के स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ता हो सकती है। मित्र मिलेंगे।

कर्क : शुभ अंक 4, शुभ रंग गुलाबी : प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। सपनी को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत करेंगे। तीखी बातों से करीबी लोग नाराज हो सकते हैं। बाहरी दबाव में अपनों को दुश्मन बना लेंगे।

🌨 सिंह : शुभ अंक 1, शुभ रंग स्रकेद : मेहनत का भरपूर लाभ मिलेगा। अपनी योजनाओं को समय रहते पूरा कर लें, राहत मिलेगी। तनाव से छुटकारा मिलेगा। सुख-सुविधा पर खर्च संभव है। रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं।

कन्या : शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला : अटका धन मिलने के आसार हैं। आयात-निर्यात के कारोबार में लाभ संभव है। विरोधी आपके खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधी चिन्ता रहेगी । साख बढ़ेगी।

तुला : शुभ अंक 4, शुभ रंग पीला : प्रसन्ता के साथ दिन की शुरुआत होगी। जरूरतों की पूर्ति के लिए धन की व्यवस्था हो सकती है। परिणय चर्चाओं में सफलता संभव है । खानपान में लापरवाही से सेहत बिगड़ सकती है।

वृश्चिक : शुभ अंक ७, शुभ रंग जामुनी : शुरुआती रेशानी के बावजूद दिन अच्छा रहेगा। अधिकारियों से मेलजोल लाभदावी रहेगा। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। छोटे-छोटे झगड़े रिश्तों में दरार ला सकते हैं।

धनु : शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल : महत्वपूर्ण काम पहले करें, बाद में धन की कमी अखरेगी। आफ्के मित्र ही आपका विरोध करेंगे। आत्मविश्वास की कमी से काम

उलझ सकते हैं। स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। 💓 मकर : शुभ अंक ८, शुभ रंग स्लेटी : राजकीय मामलों में सफलता मिलेगी। नौकरी में बदलाव का मन बनेगा। अपने रिश्तों पर ध्यान दें, छोटी-छोटी बातों से दूरियां बढ़

सकती हैं। अनुभवी लोगों का साथ केंद्रियर को विस्तार देगा। कुंभ : शुभ अंक 1 शुभ रंग काला : महत्वपूर्ण कामों में र्हमला नहीं लेने से मन अशांत हो सकता है। विरोधियों को समझा कर अपने पक्ष में कर सकते हैं। धार्मिक आयोजनों पर भारी खर्च की सम्भावना है। आय बढेगी।

मीन : शुध अंक 5, शुध रंग नारंगी : खर्च की अधिकता शुरुआत में परेशान करेगी। अटका धन मिलने से **आर्थि**क स्थिति बेहतर होगी। सामाजिक एवं पारिवारिक कार्यों भें हिस्सा लेंगे। नए संपर्क भाग्योदय में सहायक रहेंगे।

दशलक्षण महापर्व • आराधना अनंत चतुर्दशी ६ सितंबर को पूरी होगी

जीवन में कोमलता लाकर अभिमान खत्म करना मार्दव धर्म: अनुपमसागर

भारकर संवाददाता भीलवाडा

श्री महावीर दिगंबर जैन सेवा समिति के तत्वावधान में मुनि अनुपम सागर एवं मुनि निर्मोहसागर ससंघ के सानिष्य में दशलक्षण (पर्युषण) महापर्व की आराधना जारी है। सुपार्श्वनाथ जैन मंदिर के पास प्रेम चुनरिया वाटिका में दस दिवसीय सत्यार्थ बोध जैनत्व संस्कार साधना शिविर चल रहा है। दूसरे दिन उत्तम मार्दव धर्म की आराधना की गई। आराधना अनंत चतुर्दशी पर 6 सितंबर को पूर्ण होगी। मुनि अनुपम सागर ने कहा कि मृदुता कोमलता का नाम मार्दव है। किसी भी प्रकार के मान या अभिमान को समाप्त करने का नाम मार्दव धर्म है। मुनि निर्मोहसागर महाराज ने कहा कि मार्देव धर्म हमें विनम्रता, करूणा, आत्मशुद्धि, शांति, स्नेह व प्यार सिखाता है। चित्त में मृदुता व व्यवहार में विनम्रता ही मार्दव धर्म है। अहंकार ओर अभिमान का त्याग ही उत्तम मार्दव धर्म है। त्री महाबीर दिगंबर जैन सेवा समिति के अध्यक्ष राकेश पाटनी ने बताया कि दशलक्षण महापर्व के दूसरे दिन मुख्य शिविर में मंगल कलश राकेश पंचीली परिवार ने स्थापित किया। प्रथम शांतिधारा व आरती का लाभ राकेश, शशि, हिमांश्र, आकांक्षा, विहाना पाटनी परिवार ने एवं द्वितीय शांतिधारा व आरती का लाभ गणपत, ज्ञानचंद, अक्षतकुमार अग्रवाल परिवार ने पाया। प्रथम अभिषेक सुशीला पाटनी ने किया। जिनवाणी भेंट करने का लाभ रोडमल, सरोज, हेमंत गंगवाल बडीसादडी वाले ने प्राप्त किया।

देवनारायण मंदिर के शिखर पर की

कलश स्थापना, शोभायात्रा निकाली

पौराणिक भगवान देव नारायण मंदिर पर शुक्रवार को भादवी

छठ पर समाज की ओर से शिखर कलश स्थापना की गई। मेंदिर

के सेवक रामलाल तलाया ने बताया कि शिखर कलश स्थापना

से पूर्व कलश की शोभायात्रा निकाली जो देव नारायण मेंदिर से

शहीद चौक, झलकारी बाई सर्किल, खटीक मोहल्ला, दादाबाड़ी

होते हुए पंचायत भवन पहुंची। जिसमें महिलाएं सर पर मंगल

कलश धारण करके शोभायात्रा में चल रही थी। विनोद कुमार

कोली ने बताया कि भादवा पंचमी पर पंचायत भवन में रात्रि

जागरण का आयोजन किया। जिसमें भजन संध्या का आयोजन

किया। अध्यक्ष ओम प्रकाश सुनारिया ने बताया कि पॉडेत हरि

ओम शास्त्री द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन करके संत

माया राम हरीसेवा उदासीन आश्रम, नागपुरी महाराज भटाना

की उपस्थिति में शिखर पर कलश स्थापना की। समाज के

कोषाध्यक्ष महेंद्र गेंडावध ने बताया कि कार्यक्रम में विशिष्ट

सहयोग करने वालो का मारवाड़ी पगड़ी पहनाकर सम्मान

किया गया शोभावात्रा में बुद्धि प्रकाश बछापरिया के नेतृत्व में

युवाओं द्वारा अखाड़ा प्रदर्शन किया गया। चुनीलाल फर्तेहपुरी,

बालु लाल बछापरिया, रूप लाल भागीरय, लक्ष्मण, मोती सिंह

सेवंती लाल, राकेश, सुनील, सोनू, किशन, देवी लाल, हर्रा नारायण, प्रेमाल, मोती लाल अमेरिया, लक्ष्मी नारायण आदि

KANORIA ENERGY & INFRASTRUCTURE LIMITED (Formerly known as A INFRASTRUCTURE LIMITED) Read, Office : Hamirgarh-311 025, Distt. Bhilwara, Rajasthar

Website: www.ainfrastructure.com, Email: cs@kanoria.org CIN: L25191RJ1980PLC002077, Phone: 01482-286102, FAX: 01482-286104

NOTICE OF 45° ANNUAL GENERAL MEETING

E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE INTIMATION

The 45" Annual General meeting (AGM) of the members of the Company will be held

on Thursday, 25' September, 2025 at 12:30 p.m. at Hotel PFC Garden, Behind BSL

Guest House, Azad Nagar, Bhilwara, Rajasthan 311001, to transact the business as

In terms of General Circular No. 14/ 2020, 17/ 2020, 20/ 2020, 62/2021 and 62/2022

issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") read with Circular No. SEBI-HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI-HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 and

SEBUHO/CFD/CMD2/CIRIP/2022/62 issued by Securities and Exchange Board of

India (collectively referred to as "SEBI Circular"), the Company has sent 45" AGM

Notice along with the Annual Report-2024-25 in electronic form only on 29" August,

2025 to those Members whose e-mail addresses are registered with the

Company/Depositories/RTA:on 22" August, 2025. The Notice convening the AGM and

the Annual Report-2024-25 has been uploaded on the website of the Company at

www.ainfrastructure.com and may also be accessed from the relevant section of the

The members who have not yet registered or updated their email addresses are

requested to register their email addresses with their Depository Participants. For

members holding shares in physical mode, please provide necessary details like folk

Pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act, 2013, rule 1 of the

companies (management and administration) rules, 2014 and Regulation 42 of the

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the

register of members and share transfer books of the company will remain closed from

Friday, the 19" September, 2025 to Thursday, 25" September, 2025 (both days

inclusive) for the purpose of the 45" AGM and payment of dividend, if approved at the

Pursuant to the provisions of section 138 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time t

time, The Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEB (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the company is providing "remote e-

voting" facility (before the AGM) to the members to cast their vote by the electronics

means on all resolutions set out in the notice of 45th AGM and for this purpose, the

The detailed procedure/instructions for 'remote e-voting' are contained in the notice of

A. a person whose name is recorded in the register of members or in the register of

09:00 A.M. and ends on Wednesday, 24" September, 2025 at 05:00 P.M. The "remote e-voting" shall not be allowed beyond 5.00 pm of Wednesday, 24

attend the AGM but shall not be entitled for "voting" at the AGM;

voting then existing user id and password can be used for casting vote.

Scrutinizer for conducting the voting process in a fair and transparent r

evoting@nsdl.co.in, help desk number - 1800-222-990

beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 18"

September, 2025 only shall be entitled to avail the facility of "remote e-voting" and

The "remote e-voting" shall commence from Monday, 22" September, 2025 at

The members who have cast their vote by "remote e-voting" prior to the AGM car

Any person who acquires shares of the company and becomes member of the

company after sending of the notice of AGM and holding shares as on the cut-off date

i.e. 18" September, 2025 may obtain the login id and password by sending a reques

at eyoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for e-

CS Varun Kabra, Practicing Company Secretary has been appointed as

Any query/grievances perfaining to e-voting can be addressed to NSDL at e-mail:

For A Infrastructure Limited

Kuldeep Kaw

DIN: 0788222

Director

Company has appointed NSDL, for facilitating voting through electronics means.

the AGM. In this regard, the members are further notified that;

September, 2025.

websites of the Stock Exchanges Le. BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com.

no "name of shareholder(s) and email addresses at beetairta@gmail.com

set out in the notice of AGM dated 5" August, 2025.

| कोली समाज की ओर से कोली मोइल्ला स्थिति



मुनि अनुपम सागर एवं मुनि निर्मोह सागर के सानिष्य में दसलक्षण महापर्व की आराधना में लीन श्राविकाएं।

दस लक्षण पर्व के दूसरे दिन उत्तम मार्दव धर्म पर प्रवचन

मीलवाड़ा | ऊंचा उठने को पंखा चाहिए पश्ची को. इंसान जितना नीचे झुकता है, उतना ही ऊपर उठता है। शुक्रवार को दस लक्षण पर्व के दूसरे दिन उत्तम मार्दव धर्म पर प्रवचन के दौरान पंडित राहुल जैन शास्त्री सागर वालों ने यह बात कही। आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट के संयुक्त सचिव खेमराज कोठारी ने बताया कि शुक्रवार को 12 वर्षीय बालक इतिश के साथ पिता नितिन दादा नरेश गोधा सहित तीन पीढ़ियों ने जब मूलनायक आदिनाथ भगवान का प्रथम अभिषेक किया। शांतिनाथ भगवान की शांतिधारा विमल, सनत अनमेरा ने की। ओमचन्द, रिखबचन्द, बाकलीवाल परिवार, धर्मचन्द कपिल पाटनी, विनित, डॉ. विवेक बाकलीवाल, चैनसुख आशीष शाह, अशोक प्रतिक गंगवाल, महिपाल जैन, सुभाष सेठी, विपिन सेठी, राकेश पहाड़िया ने अन्य शांतिधारा की।

वास्तविक शांति: कुमुदलता **भीतवाड़ा | सुमाधनगर श्रीसंघ के तत्वावधान में दिवाकर**

वास्तु की शांति से ज्यादा जरूरी

कमला दरबार में महासाध्वी डॉ. कुमुदलता ने कहा कि जीवन में वास्तु की शांति से ज्यादा जरूरी वास्तविक शांति है। सांसारिक सुखों की चाह में इंसान पाप कर्मों में उलझ रहा है और गलत दिशा में बढ़ रहा है। जिनवाणी सुनते रहने से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। परमात्मा महाबीर ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जिनके आगे आज के वैज्ञानिक भी फीके पढ़ जाते हैं। महासाध्वी ने कहा कि जिनशासन को सेवाएं निशुल्क मिलती हैं, इसके लिए सिर्फ मन में ललक जरूरी हैं। उन्होंने बताया कि वास्तु कोई आधुनिक विज्ञान नहीं बल्कि इसका उल्लेख जैन आगम और शास्त्रों में भी है। समाज में घटती आबादी पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार में तीन संतान होनी चाहिए, जिनमें से एक को जिनशासन के लिए समर्पित करने की भावना रखनी चाहिए। महासाध्वी महहाज्ञा ने कहा कि संसार एक धर्मशाला है और जीवन क्ष्णभंगूर है।

महर्षि गर्ग मुनि के जीवन आदशौँ को अपनाने का संकल्प लिया



मीलवाडा | ऋषि पंचमी पर गर्ग **बा**ह्मण (संख्यारीण) समाज महासभा ने महर्षि गर्ग मनि की जयंती मनाई। आरजिया चौराह्य स्थित महासभा कार्यालय में पूजा-अर्चना, हवन, आरती और चालीसा पाठ किया। डॉ. भैरू लाल गर्ग की अध्यक्षता में बैठक में समाज के उत्थान व संगठनात्मक मजबूती पर विचार-विमर्श किया। महासभा अध्यक्ष गीपाल नारायण नागर, कार्यकारी अध्यक्ष रवि शर्मा, महासचिव राधेस्याम गर्ग एवं कोषाध्यक्ष गोपाल गर्ग ने विचार रखे। कार्यक्रम में हरी प्रसाद गर्ग, नरेंद्र कुमार शर्मा, भंकरलाल, गोविंद, अरुण गर्ग, ओम प्रकाश गर्ग (मंगरोप), श्याम, जगदीश रोलिया, कैलाश सोनियाना, राधेश्याम देवल, प्रदीप सोनियाना, रमेश भटेड़ा, पुरुषोत्तम आरजिया, डॉ. पवन गर्ग, हकुमचंद, पर्पेश पितास, श्यामलाल सहित बड़ी संख्या में नबंधु मौजूद रहे।

जलझूलनी पर बड़ा मंदिर तक निकलेगी पैदल यात्रा मीलवाड़ा दूसरी बार चारभुजा नाव

बड़ा मंदिर पुराना शहर तक प्रतीकात्मक तीन किमी पदयात्रा निकाली जाएगी। चारभुगा नाथ गढ़बोर राजसमंद एवं कोटड़ी श्याम जो पदयात्री पैदल नहीं जा सकते हैं, वे 3 किलोमीटर यात्रा में पैदल चलकर इंग्ट देव के मंदिर तक सम्मिलित हो सकते हैं। जलझलनी एकादशी पर 3 सितंबर को पदयात्रा सुभाष नगर श्रीराम मंदिर से प्रातः ८ बने शुरू होगी। बड़ा मॉदेर पहुंच सभी पदवात्री मॉदेर शिखर पर ध्वजा चढ़ाएंगे। इस अवसर पर मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी उपस्थित सुँगे। इस अवसर पर चारभुजा नाथ के केसरिया भोग लगाएंगे। ट्रस्ट मीडिया प्रभारी महाबीर समदानी में बताया कि श्री माहेरवरी समाज, श्री चारभुजा मंदिर ट्रस्ट के चारभुजानाथ बड़ा मंदिर तक दूसरी बार 3 किलोमीटर पदयात्रा का आयोजन हो रहा है।

आजाद नगर में वीर तेजाजी के 29वें ध्वज की स्थापना की



भीलवाद्म | मंगरा मेरवादा मित्र मंडल ने आजाद नगर में वीर तेजाजी के 29वें ध्वज की स्थापना की गई। जिलाध्यक्ष लाखन सिंह ने बताया कि यह ध्वज 18 फीट लंबा व 15 फीट चौड़ा व 15 रंगों वाला है। भजन संघ्या में भैरू सिंह एवं श्याम भोगिया एंड पार्टी ने प्रस्तुति दी। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद सुभाव बहेड़िया, पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी, प्रताप नगर धाना प्रभारी सुरजीत सिंह, राजस्थान ब्राह्मण महासभा जिला अध्यक्ष योगेश शर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अशोक तलाईच, अनिल जादौन, भाजपा प्रताप मंडल अध्यक्ष नागेंद्र सिंह, पूर्व पार्वद गणपत पारीक, किशन भारद्वाज रहे।

रजनी व्यास दूसरी बार महिला जिलाध्यक्ष मनोनीत

भैलवाड़ा | अखिल भारतवर्षीय श्री गुर्जरगौड़ ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार उपाध्याय एवं प्रांतीय महिला महासभा की अध्यक्षा ममता शर्मा ने अखिल भारतवर्षीय गुर्जरगौड़ ब्राह्मण महिला महासभा महिला जिला अध्यक्ष पद पर फिर से रजनी व्यास को वर्ष-2025 से 2029 के लिए नियुक्त किया। राधे-कृष्ण महिला मंडल की और से व्यास का उपरणा एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर नई

कार्यकारिणी का गठन किया। निसमें रुचिता शर्मा महामंत्री, प्रतिभा त्रिवेदी नगर अध्यक्ष एवं मीनू त्रिवेदी को महासचिव बनाया।

पीथास गांव में जलझूलनी एकादशी महोत्सव ३ को

मीलवाडा | पीथास ग्राम में जलझूलनी एकादशी महोत्सव 3 सितंबर को मनावा जाएगा। 2 सितंबर को भजन संध्या में नोश प्रजापत प्रस्तुति देंगे। 3 सितंबर को चारभुजा नाथ के बेवाण की शोधायात्रा निकाली जाएगी। गायक राजेश पारीक, बबलू राजस्थानी एवं पंकन राव प्रस्तुति देंगे। शोधायात्रा में मशक, ढोल, ऊंट, घोड़े, रथ व झाँकियां रहेगी। धर्म तलई पर ठाकर जी को जल में झुलावा जाएगा।

वाहन रैली निकालेंगे 2 को

भीतवाड़ा | बलाई समाज नवयुक्क सेवा स्प्रमिति के तत्वाधान में रामदेव जयंती पर 2 सितंबर को वाहन रैली एवं शोभावात्रा निकलेगी। समिति अध्यक्ष भंवर लाल बलाई ने बताया क रैली सुबह 9.15 बजे मुखर्जी उद्यान से प्रारंभ होकर हरनी महादेव स्थित बाबा रामदेव मंदिर पहुंचेगी। जहां ध्वजा चढ़ई जाएगी।

श्रीराम स्वरूप में गणेश जी

सरलता में ही मोक्ष मार्ग और आर्जव धर्म है।

दस दिवसीय पर्युषण पर्व- तीसरा दिन

उत्तम आर्जव : मन, वचन

और काया से एक होना है

उत्तम आर्जव धर्म, सरलता देने वाला, अंदर की कुटिलता को समाप्त

करने वाला है। आचार्यों ने माया का वर्णन करते हुए कहा कि जो

आसब्ति के भाव नहीं होंगे. तब तक वह पदार्थ हमें प्रभावित नहीं कर

सकता है। माया की जड़ हमारे हृदय में बैठी हुई है, हमारे विचार में है,

हमारे भाव में है। इस जढ़ को काटने के लिए आचार्यों ने आर्जव धर्म

को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस धर्म के माध्यम से हम माया की

जड को काट सकते हैं। माया वह जड है जो हमारे अंदर इतनी मजबूती

से कुटिलता, छल-कपट भरती है। दूसरों का अहित करने को हमें यह

माया तैयार कर देती है। आचार्य उमास्वामी तत्वार्थ सुत्र में कहते हैं

माया तैर्यम्योनस्य। इसका अर्थ है मायाचारी करने वाले का फल तिर्यंच

यानी पशुता है। बहुत आसान लगता है कहने में कि तिर्यंच अवस्था

को जीव प्राप्त हो जाएगा। लोग सोचते हैं अधिक से अधिक बर्नेंगे तो

पशु ही बन जाएंगे, लेकिन उस तिर्वंच अवस्था के दःखों का वर्णन

सनोगे तो, सहन नहीं कर पाओंगे। गधा भी एक तिर्यंच पर्याय का प्राणी

है। उसके जीवन में कर्ट हैं लेकिन वो पांचों इन्ट्रियों से सहित वाला

प्राणी है। जब मधे की पर्याय में इतने कष्ट हैं तो फिर एक इन्द्रिय पर्याय

में कितने करतें को सहन करना पड़ता होगा। ऐसी तिर्पय अवस्था से

• छल-कपट का, मायाचारी का त्याग नहीं होगा तो

आर्जव धर्म का पालन नहीं होगा। सरलता में बहुत कष्ट

होता है, पीड़ा बहुत होती है। लोग इस बात का फायदा

उठाते हैं और सरल व्यक्ति को ही कष्ट देते हैं। लेकिन

बचना चाहते हो तो आर्जव धर्म को स्वीकार करो।

विनिश्चव सामर जी

मन की, वचन की, काय को दुष्प्रवृत्ति है वह

माया कहलाती है। मायाचारी मन से कुछ और

सोचता है, मुख से कुछ और कहता है, शरीर से

कुछ और करता है। ऐसी स्थिति जहां भी निर्मित

होती है आचार्यों ने उसे माया का नाम दिया है।

कई मत ऐसे हैं जो कड़ते हैं समस्त सांसारिक

चीजें माया हैं। लेकिन जैन दर्शन के अनुसार

माया हमारे अंदर बैठी है, क्वोंकि वह हमारे

भावों से निर्मित होती है। संसार का कितना ही

ब्रा पदार्थ हो, जब तक हमारे अंदर उसके प्रति



मीलवड़ा जनाहर नगर में भगवान गणेश महोत्सव के तहत अगर श्री राम के स्वरूप में गणेश जी की आपके वहां भी पांडाल में गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है। जवाहर नगर नवकुकक मंडल ने बताया कि जब भगवान श्री राम ने लंका के प्रति । भारता देने के लिए समुद्र देव से रास्ता देने के किस्मित । जिस्की देव ने मार्ग देने से मना कर दिखा, प्रतिमा स्थापित की गई है। जवाहर देव ने मार्ग देने से मना कर दिखा 🔳 💽 😘 अपनी तब भगवान ने क्रोध में समुद्र देव को सुखाने को बाग उठाया था। खासियत है तो उसकी तस्वीर उसी रूप में यह प्रतिमा बनाई है। क्यूआर कोड स्कैन कर भास्कर यह प्रतिमा गंगपुर से मंगवई गई को भेज सकते हैं। साथ ही इसके है। प्रतिमा को ऊंचाई 12 फीट है बारे में प्रतिमा की खासियत भी

और भगवान गणेश के पीछे ग्रम जरूर लिखें। चयनित तस्वीर को भास्कर में प्रकाशित किया जाएगा।

मंदिर का दूरव है।

क्षेत्रत वैंस, क्षेत्रीय बार्यालयः उत्तरपुरः, समृद्धि बॉम्प्लेबन वर्षे बीजल कृषि उपन बंडी समिति के सामने, वेरी स्टेंड, उपयुरा वांकनकर्ताओं की निवृक्ति हेत्

केनत बैंक अपने ताल्याओं एवं क्षेत्रीय कार्यातय ततर पर नवर्ष आपूषण मृत्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति हेतु पात एवं योग्य अध्यक्तियों से आवेशन आयोगित क्रमत है। स्थान- उपस्पुर, चीलबाझ, उपनी ओडन, प्रतापनद, सचीत: यद सर रामः, न्यार्थ आयुक्त सुन्यांकनकारी (Gold Jewel Appraiser)

र्रेश्वरिक संप्यातः, स्वूरंतर । असे उर्वार्च (SSLC) अनुस्यः, सोर्थ के आपूर्ण्य के मृत्यांकर में कर से बार : वर्गों का म्यास्मारिक अनुस्यः अनिकर्षः। अस्य सीमा, उन से 40 वर्ग (निकरों के अनुसार आह में सूर संस्थर)

अन्य आपनामात् । अधार व पेर बाई नेनं इंडर्ड स्टानंतर, - पुनिम मान्यान निर्देट, - यो प्रतिक्षित प्राप्तनों से अनुसंग्ता प्रदः - बामोद्वाट व पानपेट आबार के निय प्रदेश, - ब्रोसान परिक्रम में उर्वेग्तं होता। अनुसंग्त आपि: 3 वर्ष, नविनोक्तन योग्य। <u>एक्त प्रक्रिया</u>: योक-इन इंटरन्यू + ब्रोसन परिक्रम। अधिक सनकारी हेतु संबंधित अपका निकटकरों साम्या से सन्तर्क करें।

11 ातलस्वा महादव मादर ट्स्ट

तिलस्वाँ, तहसील- बिजोलियां, जिला- भीलवाडा

।। जय श्री तिलम्बाँ महादेव

दिनांक 23.08.2025 कि मीटिंग के संदर्भ में उक्त कार्यों के लिए पार्किंग के ठेके पर चर्चा, सफाई कार्य के मजदुरों पर विचार-विमर्श व कम्प्युटर के अनुभवी व्यक्ति को रखने पर व पेंशनर वाले रिटायर अनुभवी व्यक्ति को रखने के लिए ट्रस्ट पदाधिकारियों की विशेष तौर पर सभी ट्रस्टियों की अनुमति लेकर उचित निर्णय लिया जायेगा। जो दिनांक 31.08.2025 को समय:- प्रात: 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच निर्णय लेकर टेण्डर प्रकिया का विज्ञापन देकर किया जायगा।

मागालाल धाकड, 9828455379

